



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

21 फाल्गुन 1939 (श0)
(सं0 पटना 219) पटना, सोमवार, 12 मार्च 2018

बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद्

अधिसूचना
10 जनवरी 2018

सं० 2093—भागलपुर जिलान्तर्गत ग्राम— जान मोहम्मदपुर, पो०— कलगीगंज, पंचायत— श्यामपुर, था०— कहलगांव स्थित माँ काली एवं नारायण जी मंदिर पर्षद् के तहत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है। इसकी निबंधन सं०— 4465 है।

इस न्यास के स्वरूप पर निर्णय हेतु पर्षदीय सुनवाई में दोनों पक्षकारों के आपसी सहमति (संयुक्त संधि—पत्र) के आलोक में दिनांक— 10/11/16 को पर्षद् द्वारा इसे सार्वजनिक न्यास घोषित कर, पर्षद् से इसे पंजीकृत करने के आदेशोपरांत इसे निबंधित किया गया है।

इसी बीच श्री बिन्देश्वरी झा द्वारा आम सभा से प्रस्तावित 11 सदस्यों की सूची के साथ न्यास समिति के गठन का अनुरोध प्राप्त हुआ। उक्त प्रस्तावित सदस्यों में संधि—पत्र के अनुसार स्थानीय ग्रामीण एवं भूदाता परिवार से भी नाम प्रस्तावित किये गये। उक्त प्रस्तावित नामों का स्थानीय थाना से सत्यापन कराया गया। थाना से प्राप्त प्रतिवेदन में किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई प्रतिकूल शिकायत नहीं होने का प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है।

सचिका में उपलब्ध संधि—पत्र के आलोक में पर्षद् के आदेश दिनांक— 10/11/16 के नियम एवं शर्त के अन्तर्गत संधि—पत्र में वर्णित सार्वजनिक न्यास की सम्पत्तियों के सुचारु प्रबंधन एवं विकास हेतु बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 की धारा— 32 के अन्तर्गत नवीन योजना का निरूपण तथा इसके संचालन के लिए नवीन न्यास समिति का गठन आवश्यक प्रतीत होता है।

अतः मैं, सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा, प्रशासक, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 की धारा— 8 (क) सह पठित धारा— 32 (1) एवं 81 (ख) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए “माँ काली एवं नारायण जी मंदिर, ग्राम— जान मोहम्मदपुर, पो०— कलगीगंज, पंचायत— श्यामपुर, था०— कहलगांव, जिला— भागलपुर” के सुचारु प्रबंधन, सम्पत्तियों की सुरक्षा तथा सम्यक विकास के लिए नीचे लिखे योजना का निरूपण तथा इसे मूर्त रूप देने के लिए एक न्यास समिति का गठन करता हूँ।

योजना

1. अधिनियम की धारा- 32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम “माँ काली एवं नारायण जी मंदिर न्यास योजना, ग्राम- जान मोहम्मदपुर, पो0- कलगीगंज, पंचायत- श्यामपुर, था0- कहलगांव, जिला- भागलपुर” होगा तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम “माँ काली एवं नारायण जी मंदिर न्यास समिति, ग्राम- जान मोहम्मदपुर, पो0- कलगीगंज, पंचायत- श्यामपुर, था0- कहलगांव, जिला- भागलपुर” जिसमें न्यास की समग्र चल-अचल संपत्ति के संधारण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा।
2. इस न्यास समिति का मुख्य कर्तव्य न्यास की संपत्ति की सुरक्षा एवं सुसंचालन तथा मंदिर की परम्परा एवं आचारों के अनुकूल पूजा-पाठ एवं साधु-सेवा की समुचित व्यवस्था करना होगा।
3. न्यास की समस्त आय न्यास के नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलकर जमा किया जायेगा तथा सचिव एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से इसका संचालन होगा।
4. न्यास की आय-व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगा।
5. न्यास समिति अधिनियम एवं उप-विधि में वर्णित सभी नियमों का पालने करते हुए प्रतिवर्ष न्यास के आय-व्यय की विवरणी, अंकेक्षण प्रतिवेदन, कार्यवृत्त आदि सम्यक रूप से पर्षद को प्रेषित करेगी। यह विवरणी मार्गदर्शिका के आलोक में देय होगा।
6. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक आहूत करेंगे। न्यास समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार अवश्य बुलाई जायेगी और बैठक की कार्यवृत्त पर्षद को प्रेषित की जायेगी।
7. न्यास समिति द्वारा कोई नयी योजना न्यास हित में आवश्यक समझा जायेगा तो इस हेतु निर्धारित विशेष बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद के अनुमोदन के लिए भेजेगी।
8. न्यास समिति न्यास की अतिक्रमित/हस्तांतरित भूमि “यदि कोई हो तो”, उसकी वापसी के लिए समुचित वैधानिक कार्रवाई करेगी।
9. इस योजना में परिवर्तन, परिवर्द्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद में निहित होगा।
10. न्यास समिति के कोई सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न्यास से लाभ उठाते पाये जायेंगे या न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करेंगे तो इस संबंध में उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर समुचित कार्रवाई की जाएगी।
11. न्यास समिति के सदस्य की यदि कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी या वे आपराधिक काण्ड में आरोप-पात्रित होंगे तो, उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

पर्षद द्वारा निरूपित योजना को मूर्त रूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों को न्यास समिति गठित की जाती है:-

- | | | |
|-----|--|-------------|
| 1. | श्री राम स्वरूप शर्मा पिता-स्व0 दरोगा शर्मा, ग्राम+पो0- कलगीगंज | - अध्यक्ष |
| 2. | श्री जितेन्द्र कुमार साह पिता-स्व0 चन्देश्वरी साव, ग्रा0- श्यामपुर, पो0-लालापुर भदेर | - उपाध्यक्ष |
| 3. | श्री रणवीर कुमार सिंह पिता- स्व0 कुलदीप नारायण सिंह ग्रा0- जान मोहम्मदपुर | - सचिव |
| 4. | श्री बिन्देश्वरी झा पिता- स्व0 नंदकिशोर झा ग्रा0- जान मोहम्मदपुर | -कोषाध्यक्ष |
| 5. | श्रीमति शर्मिला देवी (जिला पार्षद), रणवीर कुमार सिंह, ग्रा0-जान मोहम्मदपुर | - सदस्य |
| 6. | श्री आलोक कुमार गांगुली पिता- स्व0 विद्युत कुमार गांगुली, ग्रा0- जान मोहम्मदपुर | - सदस्य |
| 7. | श्री प्रदीप कुमार गांगुली पिता- स्व0 ज्योतिपर्णा गांगुली, ग्राम- जान मोहम्मदपुर | - सदस्य |
| 8. | श्री विजय कुमार विजय पिता- स्व0 भोला झा, ग्रा0- अनादिपुर, पो0+थाना-कहलगांव | - सदस्य |
| 9. | श्री सुधीर मंडल पिता- स्व0 राधे मंडल, ग्रा0- जान मोहम्मदपुर, पो0-कहलगांव | - सदस्य |
| 10. | श्री मुन्ना पासवान पिता- स्व0 राधे पासवान ग्रा0+पो0- कहलगांव | -सदस्य |
| 11. | श्री जय राम सिंह (अधिवक्ता) पिता-स्व0 राम कुमार सिंह, ग्रा0-जान मोहम्मदपुर | - सदस्य |

12. उपरोक्त वर्णित न्यास समिति का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से अगले 05 वर्षों का होगा, लेकिन एक वर्ष के बाद न्यास समिति के कार्यों की समीक्षा की जायेगी और कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर इसकी निरन्तरता कायम रहेगी।

आदेश से,
सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा,
प्रशासक।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
बिहार गजट (असाधारण) 219-571+10 -डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>